



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3182]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 3182]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

का.आ.3978(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निधिरण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तराखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, उत्तराखंड कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1)	डा. शरद सिंह नेगी, आई एफएस (सेवानिवृत्त), 178, सुभाष रोड., सिटी स्टार होटल के निकट, देहरादून-248001, उत्तराखंड	अध्यक्ष;
(2)	श्री शैलेन्द्र सिंह बिष्ट, मधु वाटिका, नर्सरी रोड. श्रीनगर, गढ़वाल-246174-उत्तराखंड	सदस्य;
3.	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, उत्तराखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, उत्तराखंड अपने विनिश्चय इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन उत्तराखंड राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.पी.) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, उत्तराखंड की सहायता करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति, उत्तराखंड का गठन करती है (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(1)	डा. आर.के. श्रीवास्तव, पर्यावरण विज्ञान विभाग सीबीएसएच, जी.बी.पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला यू.एस. नगर-263145, उत्तराखंड	अध्यक्ष;
(2)	डा. राकेश चंद्र सिंह कुंवर, ग्राम और पोस्ट कंसुवा (चांदपुर गढ़), पट्टी चांदपुर, जिला चमोली-246174, उत्तराखंड	सदस्य;
(3)	डा. पुष्कर सिंह बिष्ट, आचार्य, ग्राम और पोस्ट ऑफिस, देवसारी, जिला चमोली, उत्तराखंड	सदस्य;
(4)	डॉ. बी.पी. पुरोहित, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्, विज्ञान धाम, झाजरा, देहरादून-248007, उत्तराखंड	सदस्य;
(5)	प्रभाग वन अधिकारी (आईएफएस), देहरादून वन प्रभाग	सदस्य सचिव।

6. एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. उत्तराखंड राज्य सरकार, प्राधिकरण उत्तराखंड और एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता उत्तराखंड राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/55/2008-आई.ए. II (I)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

S.O. 3978(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttarakhand (hereinafter referred to as the Authority, Uttarakhand) comprising of the following Members, namely: -

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (1) | Dr. Sharad Singh Negi, IFS (Retd.),
178 Subhash Road, Near City Star Hotel,
Dehradun- 248001, Uttarakhand | - Chairman; |
| (2) | Shri Shailendra Singh Bisht,
Madhu Vatika, Nursery Road, Srinagar,
Garhwal-246174, Uttarakhand | - Member; |
| (3) | Chief Conservator of Forest, Garhwal | - Member Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority, Uttarakhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Uttarakhand shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Uttarakhand shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Uttarakhand.

5. For the purposes of assisting the Authority, Uttarakhand, the Central Government, in consultation with the Government of Uttarakhand, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Uttarakhand (hereinafter referred to as SEAC, Uttarakhand) comprising of the following Chairman and Members, namely :-

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| (1) | Dr. R.K. Srivastava,
Department of Environmental Science, CBSH
G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar,
District U.S. Nagar - 263145, Uttarakhand | - Chairman; |
| (2) | Dr. Rakesh Chandra Singh Kunwar,
Village and Post Kansuwa (Chandpur Garh),
Patti Chandpur, District Chamoli- 246174, Uttarakhand | - Member; |
| (3) | Dr. Pushkar Singh Bisht, Professor,
Village & Post Office Dewsari, District Chamoli, Uttarakhand | - Member; |
| (4) | Dr. B.P. Purohit,
Uttarakhand State Council for Science and Technology,
Vigyan Dham, Jhajra, Dehradun - 248 007, Uttarakhand | - Member; |
| (5) | Divisional Forest Officer (IFS),
Dehradun Forest Division | - Member Secretary. |

6. The Chairman and Members of the SEAC, Uttarakhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Uttarakhand shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Uttarakhand shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Uttarakhand shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Uttarakhand and SEAC, Uttarakhand, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Uttarakhand and the Chairman and Members of the SEAC, Uttarakhand shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Uttarakhand.

[F. No. J-11013/55/2008-IA-II(I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.